



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1030) पटना, बुधवार, 4 जून 2025

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

30 मई 2025

सं० 11/फि0(स्था0)—03/2013—424(11)—भारत संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, “बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014” (समय—समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

- (1) यह नियमावली बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग नियमावली 2014 (समय—समय पर यथा संशोधित) के नियम 7 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे:—

“7. भर्ती की प्रक्रिया।—

- (1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अध्याचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।
- (2) सामान्य कर्तव्य उप—संवर्ग (फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट)।—अध्याचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन—पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा:—

(क)	लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अंक (नोट— प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरण के लिए—यदि किसी अभ्यर्थी को प्रतियोगिता परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हों, तो उसे $60 \times 0.75 = 45$ अंक दिए जाएंगे।)	—	75 अंक
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------

(ख)	कार्यानुभव प्राप्तोंक बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों/संस्थानों तथा गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन) अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक। (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।)	—	25 अंक
कुल			100 अंक

- (3) **विशेषज्ञ उप-संवर्ग (विशेषज्ञ फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट)**।— अध्यायना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा :—

(क)	लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अंक (नोट— प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तोंक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरण के लिए —यदि किसी अभ्यर्थी को प्रतियोगिता परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हों, तो उसे $60 \times 0.75 = 45$ अंक दिए जाएंगे।)	—	75 अंक
(ख)	कार्यानुभव प्राप्तोंक बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों/संस्थानों तथा गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन) अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक। (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।)	—	25 अंक
कुल			100 अंक

- (4) कार्यानुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा कंडिका-02 (ख) एवं 3 (ख) में उल्लेखित संस्थानों के स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य किया जायेगा।
- (5) संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उसी पद पर नियमित नियुक्ति में देय होगा, जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत है।
- (6) आयोग, उपर्युक्त उपनियम (2) एवं (3) के आधार पर मेघासूची तैयार करेगा एवं अध्यायित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच किए जाने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार स्वास्थ्य जाँच, पूर्ववृत्त सत्यापन आदि कराते हुए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।
- (7) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

30 मई 2025

सं० 11/फि० (स्था०)-03/2013-425(11)/अधिसूचना संख्या 424(11) दिनांक 30 मई 2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

The 30th May 2025

No. 11/Phy. (Astha.)-03/2013-424(11)—In exercise of powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to amend the Bihar Physiotherapist/Occupational therapist Cadre Rules, 2014 (as amended from time to time) :-

1. Short title, extent & commencement.—

- (1) These Rules may be called as the “Bihar Physiotherapist/Occupational therapist Cadre (Amendment) Rules, 2025.”
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. substitution of Rule-7 of the Bihar Physiotherapist/Occupational Therapist Cadre Rules, 2014 (as amended from time to time) :- Rule-7 of the said rules shall be substituted by the following:-

"7. Procedure of Recruitment.-

- (1) **The** appointing authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the Year and getting roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Commission latest by 30th April.
- (2) **General Duty Subcadre (Physiotherapist/Occupational therapist).—**The Commission on the requisition shall advertise the vacancies and invite application forms from eligible candidates and on the basis of written competitive examination and experience, the candidates shall be selected.:-

(a)	Full marks for the written competitive Examination [Note:-The marks to be awarded to a candidate for the marks obtained in the competitive examination will be awarded by multiplying the percentage of total marks obtained in the said competitive examination by a factor of 0.75 {for example if a candidate has obtained 60 percent marks in the competitive examination. Then he will be given (60 × 0.75)=45 marks}]	—	75 marks
(b)	Experience Marks:- For working in state Government Hospitals of Bihar/Institutions and Non Private Hospital (under control of central Government, Panchayati Raj institutions, and urban local bodies). 5 marks/year shall be given for working experience on same post while working in above mentioned hospitals/Institutions. Maximum 25 Marks (Number of working days as part of an year will be multiplied by 5 and then after divided by 365, shall be added as proportional marks)	—	25 marks
Total			100 marks

(3) **Specialist Subcadre (Specialist Physiotherapist/Occupational therapist).—**

The Commission on the requisition shall advertise the vacancies and invite application forms from eligible candidates and on the basis of written competitive examination and experience the candidates shall be selected.:-

(a)	Full marks for the written competitive Examination [Note:-The marks to be awarded to a candidate for the marks obtained in the competitive examination will be awarded by multiplying the percentage of total marks obtained in the said competitive examination by a factor of 0.75 {for example if a candidate has obtained 60 percent marks in the competitive examination. Then he will be given $(60 \times 0.75)=45$ marks}]	—	75 marks
(b)	Experience Marks:- For working in state Government Hospitals of Bihar/Institutions and Non Private Hospital (under control of central Government, Panchayati Raj institutions, and urban local bodies). 5 marks/year shall be given for working experience on same post while working in above mentioned hospitals/Institutions. Maximum 25 Marks (Number of working days as part of an year will be multiplied by 5 and then after divided by 365, shall be added as proportional marks)	—	25 marks
Total			100 marks

- (4) Benefit of work experience shall be given only to those applicants who pass the competitive examination. The certificate of work experience issued by Civil Surgeon of the concerned district, Principal of Medical College, Superintendent of Medical College and hospital, Director in case of Super speciality Hospital and in Case of head of those Institutions which are mentioned in Para 2(b) & 3(b) will be acceptable.
- (5) Benefit of work experience of contractual worker and upper age relaxation for the period of contractual engagement will be applicable for those regular appointed candidates who are working on the same post.
- (6) The Commission shall prepare merit list on the basis of sub-rule (2) & (3) and shall send reservation category wise recommendation in accordance with the requisitioned vacancies to the Department. Thereafter, the appointing authority concerned shall make appointment after verification of certificate, conducting medical tests, verification of antecedents, etc and complying guidelines regarding to appointment issued by the Government (General Administration Department), from time to time.
- (7) After recommendation of the Commission, it shall be necessary to follow instructions regarding procedure of appointment issued by the Government, from time to time.

**By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Additional Secretary of Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1030-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>